

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE
सहायता हेतु आवेदन प्रारूप

(Healthcare)
(स्वास्थ्य देखभाल)



APPLICATION No.: आवेदन संख्या:	Blosau 10460	APPLICATION DATE: आवेदन तिथि:	22/5/24
NAME of APPLICANT: आवेदक का नाम:	Louramma	AGE-YEARS वय-वर्ष:	55 F
FATHER'S/SPOUSE'S NAME: पिता/कानूनी का नाम:	N/o Shivanna.		
PRESENT RESIDENCE ADDRESS: वर्तमान आवासीय पता		PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: स्थान आवासीय पता	
Athaguru Hobli Nisberalu mandya madden karnataka		11- post-of post of 10460 Louramma	
OCCUPATION: पेशी:	House maker	MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (अविवाहित) (Attach Proof of Income) (वय के साथ संलग्न)	
TOTAL ANNUAL INCOME: कुल वार्षिक वय:			
PAN No. स्थर्ट ग्राहक संख्या			
E YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable): मैं आप जाए कर रहा हूँ (जो मान्य हो उस पर चाही का प्रिश्नत स्थाप्त)			
Yes / No हाँ / नहीं			
FAMILY DETAILS परिवार विवरण			
Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) उम्र (वर्ष)	Gender लिंग
①	Shivnagar Prakash	30y 9y	m m
			Relation with Applicant आवेदक के सम्बन्ध
			Son son
BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable) सहायता के लिये विभिन्न आधार			
BPL Card (Attach Card Copy) गरीबी रेखा के नीचे प्रमाण वाच (प्रमाण पत्र की साथ जोड़ संलग्न करें)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy) व्यापक व्यापक वय (प्रमाण पत्र की साथ जोड़ संलग्न करें)	Ration Card (Attach Copy) व्यवसायी कार्ड (प्रमाण पत्र की साथ जोड़ संलग्न करें)	Any Other Basis/Proof अन्य कोई साध्य
"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE: सहायता हेतु लिये गये विवारी का उद्देश्य:			
Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached व्यवसायी कार्ड से जारी की गई प्रतिवेदन सभी संलग्न Diagnosis RCC castrate NFS castrate		
	Surgery:- LF cut + PCIS		
ASSISTANCE BEING AVALIED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES इस उद्देश्य के लिये कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया हो?			
Sr. No. क्रम संख्या	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम:	AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVALIED जो वर्ष सहायता दी गई	
①	DBCS	2000/-	

DECLARATION by APPLICANT: मेरी यह घोषणा है-

- I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
 - I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
 - I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.

1) मैं पोषण काला हूँ कि इस ज्ञानपत्र में दिये गये सभी विवरण येरे जनकारी की अनुधार साथ एवं सही है। यदि कोई विवरण एवं कानून अनुच्छेद पाला जाता है तो येरे माध्यम सिस्टम की जा सकती है।

2) मैं द्वारा जैसे सामग्री यथा "कार्बोन कॉलोडिन", से जी जा रही है, उसका उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जायेगा, जैसे इस प्राकृतिक में पाया जाता है।

3) मैं जीव काला हूँ कि यह व्याख्या की गई है, इस दस्ति का अतिक्रमण या गलत विवरण किसी भी भौतिक विद्युतीय विकल्पीय ये न हो सकता है और न ही अविष्य में सूची।

AGREEMENT by APPLICANT (आवेदक द्वारा)

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and its Trustees to user/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about its activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfilment of the "purpose" for which assistance is being requested.

2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision in this regard will be final and acceptable to me.

1.) इस प्रकाश पर अपने हस्ताक्षर या अंगठे की छाप लगाकर, मैं (आवेदक) अपनी सहमति को दिखाकर हूँ कि "कोशिका फार्मार्टेन और उसके ग्राहकों" को अधिकार करता हूँ कि मेरा ज्ञान, विश्वास एवं प्रयत्न इस प्रयास में ध्यायित है, ताकि "कोशिका" एवं ज्ञान, विद्या एवं दूसरे उद्देश्य से भुक्ति गणितीयता और इन्स्ट्रिक्शन्स के लिये किसी भी प्राप्त भाष्यमें प्रयोगित करने के लिये उपलब्ध है। ये प्रयत्न का लियाजन मोहल्ले के घटनाएँ या बाहर में करने के लिये "कोशिका फार्मार्टेन" व ज्ञानी अधिकृत है।

2.) मैं (आवेदक) इस बताये जानकारी को विश्वास अद्वितीय और वास्तविक होना।

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION:

प्राचीन रूप से विद्या



AGREEMENT by HOSPITAL (અમારી સર્વો)

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we
hereby affirm & accept following:

- (Hospital) hereby affirm & accept following:

1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves it's right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source

2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility

हमने अधिकृत, इसकी को जोर से मानते/रोगी को "कोरोना फार्म्सेशन" में वित्तीय सहायता हेतु लिपरिश की जाती है, जिसे हम (हस्ताक्ष) निम्न प्रकार से सच्च व स्थीकृत करते हैं।

1) यह कि न तो वित्तीय और न ही भवित्व में वित्तीय सहायता किसी गैर साक्षी योग्यता के कानूनी अन्य स्तरों से उक्त रोगी/प्राप्ति में स्थिर या तो रहे हैं, ऐसे कि हमने "कोरोना फार्म्सेशन" में वित्तीय वित्तीय उक्त वंश सम्बन्ध में "कोरोना फार्म्सेशन" द्वारा प्रदर्श हेतु किया है तो अस्पताल किसी अन्य या साक्षी योग्यता के किसी अन्य सम्बन्ध से सहायता लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस दृष्टि में सच्च वहा जाह है कि अस्पताल वित्तीय प्रदर्श उक्त रोगी/प्राप्ति हेतु किसी गैर साक्षी योग्य या किसी अन्य वापर से नहीं लेंगे/रखें।

- १) यह कि न हो सहायता और न ही भविष्य में वित्तीय सहायता किसी गैर सहकारी संस्थान या किसी अन्य संस्था से उक्त दोस्री/पार्टी में लेंगे या नहीं है, जैसे कि हमने "कांशिका फार्म-डिसेन्स" से वित्तीय सहायता उक्त कंपनी संस्था में "कांशिका फार्म-डिसेन्स" द्वारा प्रदर्श देना चाहिए है। यह "कांशिका फार्म-डिसेन्स" द्वारा सहायता वित्ती व्यापारिक/सकल हेतु प्रदान नहीं किया जाता है तो अस्पताल किसी अन्य गैर सहकारी संस्था या किसी अन्य सम्बाधन से सहायता लेने का अधिकार सुनिश्चित रखता है। इस दृष्टि में स्पष्ट बहा जाता है कि अस्पताल डिलीप प्रदर्श उक्त दोस्री/पार्टी में लेंगे सहायता की किसी अन्य व्यापार से नहीं संभव होती।

२) "कांशिका फार्म-डिसेन्स" से नहीं नई संसाधन कोंबल वित्तीय प्रकृति चाहती है। दोस्री पर हमस्ताल द्वारा नई संसाधन या किसी नये उपचार/प्रक्रिया का चुनाव देनी शर्व हमस्ताल के दोस्रा का विषय है और "कांशिका फार्म-डिसेन्स" द्वारा किसी प्रकार का कोई एकात्म नहीं है। इसलिये हमस्ताल में दोस्री के इसाव जूसा और अन्य जाने की इसी किसीएटी हेतु शर्व हमस्ताल नहीं होती और "कांशिका" की कोई भविष्यक या विसंगती इस व्यापार में नहीं होती।

[Signature]

RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE

Mr. Lakshmipathi N
Manager Outreach

Date of Surgery अंगोल को तारीख 22/5/24	 Dr. Laxmi Dorennavar (Name) MBBS, MS, FPRS, FICO Consultant - Phaco & Refractive	Institute for Diabetes & Eye Care (A unit of Shraddha Eye Care Trust.) # 18 M. Thimmajah Road, Miller Tank Bed Area (Name, Designation & Stamp of Authorised Signatory on behalf of Hospital) कम व पट हस्पताल अधिकारी
---	--	---

FOR INTERNAL USE ONLY BHAKTA FOUNDATION भक्तीक वाणी फूंड

SIGNATURE of TRUSTEE 1

SIGNATURE of TRUSTEE 2

Safaryl

eric